



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 43]

No. 43]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 16, 2003/पौष 26, 1924

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 16, 2003/PAUSA 26, 1924

कोयला और खान मंत्रालय

(कोयला विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2003

का.आ. 48(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (i) के अधीन, भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 89 तारीख 12 जनवरी, 2001 द्वारा, जो भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 20 जनवरी, 2001 में प्रकाशित की गई थी, उससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट और जो इससे संलग्न अनुसूची में भी विनिर्दिष्ट है, परिसर की भूमि में जिसका माप 665.65 एकड़ (लगभग) या 269.38 हेक्टर (लगभग) है, कोयले का घूर्णन करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और उक्त भूमि की बाबत उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (i) के अधीन कोई सूचना नहीं दी गई है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 20 जनवरी, 2003 से प्रारंभ होने वाली एक वर्ष की और अवधि को ऐसी अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसके भीतर केन्द्रीय सरकार उक्त भूमि या ऐसी भूमि में या उन पर के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दे सकेगी।

अनुसूची**पदमा ब्लाक तलचर कोल्फील्ड****जिला अंगुल (उड़ीसा)****(रेखांक एम सी एल/ एस ए एम बी / सी जी एम / सी पी एंड पी / पदमा/02/14 तारीख 26-04-2000)****सभी अधिकार**

क्र.सं.	ग्राम	थाना और सं.	तहसील और उप डिवीजन	जिला/सर्ज	क्षेत्र एकड़ में	टिप्पणियां
1.	जोरागडिया	तलचर -69	तलचर	अंगुल/उड़ीसा	28.00	भाग
2.	कुरीहन	तलचर -80	तलचर	अंगुल/उड़ीसा	48.00	भाग
3.	नाकीपासी	कोलरी -23	तलचर	अंगुल/उड़ीसा	57.00	भाग
4.	पदमाबतीपुर	कोलरी -30	तलचर	अंगुल/उड़ीसा	118.00	भाग
5.	राकासास	तलचर -81	तलचर	अंगुल/उड़ीसा	309.00	भाग
6.	बुंदावनपुर	तलचर -83	तलचर	अंगुल/उड़ीसा	105.65	संपूर्ण
योग			665.65 एकड़ (लगभग) या 269.38 हेक्टर (लगभग)			

सीमा वर्णन**क-ख-ग**

रेखा ग्राम नाकीपासी में बिन्दु 'ग' से आरंभ होती है और उसी गांव में उत्तर की ओर अग्रसर होती है तथा बिन्दु 'ख' पर जोरागडिया और नाकीपासी ग्राम की सम्मिलित सीमा पर मिलती है, जो नाकीपासी, सरनगा और जोरागडिया ग्रामों का त्रिसंगम है। फिर, ग्राम जोरागडिया में उत्तर की ओर चलती हुई बिन्दु 'ग' पर पहुंचती है।

ग-घ-ङ-च

रेखा ग्राम जोरागडिया और कुरीहन से होती हुई बंगाल नाला के दक्षिणी किनारे के साथ - साथ बिन्दु 'ङ' तक पूर्व की ओर अग्रसर होती है। फिर रेखा ग्राम राकासास की उत्तरी सीमा के साथ पूर्व की ओर बिन्दु 'च' तक अग्रसर होती है।

च-छ-ज-झ

रेखा बुंदावनपुर ग्राम की उत्तरी सीमा के साथ-साथ पूर्व की ओर बिन्दु 'छ' तक चलती है। फिर, बिन्दु 'ज' तक ग्राम बुंदावनपुर की पूर्वी सीमा के साथ - साथ अग्रसर होती है और तत्पश्चात् बिन्दु 'झ' तक ग्राम राकासास की पूर्वी सीमा के साथ - साथ चलती है।

झ-ञ-ट-क

रेखा ग्राम राकासास से होकर पश्चिम की ओर अग्रसर होती है और बिन्दु 'ञ' पर राकासास और पदमाबतीपुर ग्रामों की सम्मिलित सीमा पार करने के पश्चात् वह ग्राम पदमाबतीपुर से होकर पश्चिम की ओर निरन्तर चलती है तथा बिन्दु 'ट' पर ग्राम पदमाबतीपुर और नाकीपासी की सम्मिलित सीमा को पार करते हुए ग्राम नाकीपासी में आरंभिक बिन्दु 'क' पर मिलती है।

[सं. 43015/11/2000 पी.आर.आई.डब्ल्यू.]

ए.पी.वी.एन. शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL AND MINES**(Department of Coal)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th January, 2003

A

S.O. 48(E).—Whereas by the notification of the Government of India, in the

Ministry of Coal, number S.O. 89 dated the 12th January, 2001 issued under sub-section (1) of the section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) and published in Part-II, Section 3, sub section (ii) of the Gazette of India, dated the 20th January, 2001, the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in lands measuring 665.65 acres (approximately) or 269.38 hectares (approximately) in the locality specified in the Schedule appended thereto, as also in the Schedule hereto annexed ;

And whereas in respect of the said lands, no notice under sub-section (1) of section 7 of the said Act has been given;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the said Act , the Central Government hereby specifies a further period of one year commencing from the 20th January, 2003 as the period within which the Central Government may give notice of its intention to acquire the said lands or any rights in or over such lands.

Schedule

Padma Block, Talcher Coalfield District Angul (Orissa)

All rights

(Plan bearing NO.MCL/SAMB/CGM(CP&P)/Padma/00/14 dated 26.04.2000)

SL. No.	Village	Police Station and No	Tahsil / Sub Division	District/ State	Area in acres	Remarks
1	Joragadia	Talcher - 69	Talcher	Angul/ Orissa	28.00	Part
2	Kurihan	Talcher - 80	Talcher	Angul/ Orissa	48.00	Part
3	Nakeipasi	Colliery - 23	Talcher	Angul/ Orissa	57.00	Part
4	Padmabatipur	Colliery - 30	Talcher	Angul/ Orissa	118.00	Part
5	Rakas	Talcher - 81	Talcher	Angul/ Orissa	309.00	Part
6	Brundabanpur	Talcher - 83	Talcher	Angul/ Orissa	105.65	Full
Total					665.65 (Approximately) or 269.38 hectares (Approximately)	

Boundary description

A-B-C:- The line starts from point 'A' in Village-Nakeipasi and then proceeds towards north in the same village and meets the common boundary of village Joraggadia and Nakeipasi at point 'B' which is the trijunction point of villages Nakeipasi, Saranga and Joragadia. Then moving towards north in village Joragadia it reaches point 'C'.

C-D-E-F The line proceeds towards east along the southern bank of Bangaru Nala via village Joragadia and Kurihan upto point 'E'. Then the line proceeds towards east along the northern boundary of village Rakas upto point 'F'.

F-G-H-I The line moves towards east along the northern boundary of village Brundabanpur upto point 'G'. Then it proceeds along the eastern boundary of village Brundabanpur upto point 'H' and thereafter moves along the eastern boundary of village Rakas upto point 'I'.

I-J-K-A The line proceeds towards west through village Rakas and after crossing the common boundary of villages Rakas and Padmabatipur at point 'J' it continues to move towards west through village Padmabatipur and crossing the common boundary of villages Padmabatipur and Nakeipasi at point 'K', meets at starting point 'A' in village Nakeipasi.

[No. 43015/11/2000-PRIW]

A.P.V.N. SHARMA, Jt. Secy.